

सरकार से जुड़ के काम करने के लिए कौनसी बातें अहम् हैं?

सभी बिंदु एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव और और अर्थन द्वारा आयोजित सेशन 'बिल्डिंग नॉलेज, स्किल्स एंडएपेटिटूड फॉरइफेक्टिव गवर्नमेंट इंगेजमेंट' से लिए गए हैं।



बच्चों में नागरिक ज़िम्मेदारी की जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी

सिर्फ वोट करने से नागरिक ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। लोगों और सरकार के रिश्ते को लगातार बढ़ावा मिलना ज़रूरी है। छोटी उम्र से ही बच्चों को ज़िम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और इसके लिए स्कूल की राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई अहम् है।

सरकार और संस्थाओं की भागीदारी

सरकार और सामाजिक संस्थाओं के बीच रिश्ते को हमेशा विरोधियों की तरह ना देख कर, बराबर की भागीदारी की ओर बढ़ना ज़रूरी है। यह करना नामुमकिन नहीं है। संस्थाओं को निरंतर कोशिश और संवाद का महत्व समझना बेहद ज़रूरी है।




नौकरशाही को समझना अहम्

सरकारी अधिकारियों के भी अपने पेशेवर और निजी प्रेरणाएं होती हैं, इसलिए इनको समझना उनके साथ बेहतर काम करने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे में, सरकारी अधिकारी या नौकरशाही को समझ कर ही उनके साथ बेहतर काम करने का रिश्ता बनाया जा सकता है।

सही दरवाज़े पर खटखटाने का महत्त्व

विश्व के बाकी देशों में भी देखा गया है कि सरकार में सही दरवाज़े पे खटखटाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार और उसको काम करने के तरीको को समझना ज़रूरी है। अगर बार-बार ऐसे अधिकारी के पास गए जो उस काम से सम्बंधित नहीं है, तो संस्था के नाम और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है।



सरकार के साथ जुड़े रहना

सरकारी अधिकारी चाहेंगे कि संस्था ना सिर्फ समस्या को समझ कर सुझाव दे, बल्कि उनके साथ मिल कर समस्या को ठीक करने के काम में भी उनके साथ चले।

स्थानीय संदर्भ का महत्त्व

किसी भी नीति निर्माण या योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है और यहाँ संस्थाओं की बड़ी भूमिका है क्योंकि वह जगह और वहाँ के लोगों को जानते और समझते हैं।

